

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 462]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 अगस्त 2017—भाद्र 1, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल,

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-एनएन-01-2017-पांच-780.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् मंडला जिला मंडला के माह अगस्त 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, मण्डला.	अध्यक्ष	—	—	पूर्णिमा अमित शुक्ला	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	श्रीमति रश्मि नेकेश्वर पटेल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती आशा वर्मा	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	प्रहलाद सोनी	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	हिमान्शु मारूति बर्वे (हनी)	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति रमा उसराठे (अम्माजी)	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	शारिका मिश्रा	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	सरिता महान	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमति ज्योति चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10		पार्षद	9	नौ	दीपक सोनी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	भगवती चरण (बंसत) चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शाका महेश यादव	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	कोमल चंद कछवाहा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	(सरिता) शालिनी सुधीर सुनेरी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	गिरीश चंदानी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	मीरा पटेल	निर्दलीय
17		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती ज्योति "दीपेश"	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
					बाजपेयी.	
18		पार्षद	17	सत्रह	अशोक कछवाहा (बौना)	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अठारह	दीपेश बाजपेयी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमति सरिता गणेश बैरागी	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	श्रीमति प्रेमलता भुवन दास	भारतीय जनता पार्टी
					बैरागी.	
22		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती शिखा श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	रितेश राय	निर्दलीय
24		पार्षद	23	तेईस	श्रीमति धारणा खुब्बी लाल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
					नायक.	
25		पार्षद	24	चौबीस	नरेन्द्र कुमार (राजा मरावी)	इण्डियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-781.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् नैनपुर जिला मंडला के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, नैनपुर, जिला मंडला.	अध्यक्ष	—	—	नरेश शोभाराम चन्द्रौल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	देवकी नंदा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कासिम अली	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		पार्षद	3	तीन	संजय वधवाल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	ब्रजेश शर्मा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	महेश्वरी बालाजी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	रमजान खान	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	लक्ष्मी बाई उइके	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	संगीता लारेश्वर	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	जय कुमार	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	सविता यादव	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुभाष सेन	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	शंकर सायरानी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	वर्षा नायक	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	राजेन्द्र	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति मंजू श्याम जायसवाल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-782.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् निवास जिला मंडला के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, निवास, जिला मंडला.	अध्यक्ष	—	—	चैन सिंह वरकड़े	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	मुरारिलाल सिंगरौरे	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सुलभा/आनंद तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रजनी नामदेव	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अब्बू उर्फ नवाब खाँ	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6		पार्षद	5	पांच	निशा तेकाम	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	बंसत चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	राकेश जैन	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती धरमी बाई	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	सुश्री विभा जैन	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	श्रीमती सरिता जायसवाल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती देवकुमारी मरावी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	आशा बाई	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती सरोज बाई मार्को	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-783.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् बम्हनीबंजर, जिला मंडला के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर पद परिषद् का नाम, जिले का अर्थात् नाम सहित	नगर पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बम्हनीबंजर, जिला मंडला.	अध्यक्ष	—	—	लक्ष्मी उर्फ सुशीला चौरसिया.	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्री नारायण चन्द्रौल पिता मेवा लाल चन्द्रौल.	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्री सचिन कुमरे पिता अन्तराम कुमरे.	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्री वीरेन्द्र चन्द्रौल पिता उमाकांत चन्द्रौल.	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति ललिता हरदहा पति नरेन्द्र हरदहा.	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	श्री ओम प्रकाश चन्द्रौल (अम्मू) पिता फूलचंद चन्द्रौल.	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति पुष्पा अशोक रघुवंशी पति अशोक रघुवंशी.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्री सुनील चौरसिया पिता स्व. काशीप्रसाद चौरसिया.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती मीना हरदहा पति अरविन्द हरदहा.	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति अभिलाषा चौरसिया (रानी) पति सुरेन्द्र चौरसिया.	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	श्रीमति सारिका राय पति अजय राय.	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्री रेहांश डहेरिया पिता राजेन्द्र प्रसाद डहेरिया.	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति नर्मदा बाई नंदा पति मुन्ना लाल नंदा.	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्री विनय कुमार चक्रवर्ती पिता छोटेलाल चक्रवर्ती.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	साधना कुमारी पिता भोला प्रसाद.	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पंद्रह	श्री श्रद्धालु सोनी पिता सुरेश कुमार सोनी.	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-784.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् बिछिया, जिला मंडला के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बिछिया, जिला मंडला.	अध्यक्ष	—	—	श्री विजेन्द्र सिंह कोकड़िया पिता मोहन लाल कोकड़िया.	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमति ज्योति श्रीकांत कुलस्ते	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3		पार्षद	2	दो	श्री नरेन्द्र कुमार धुर्वे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति ज्योति अशोक नानकानी.	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्री प्रदीप कुमार झारिया	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति रामकुमारी परते	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	श्री रानू रणधीर सिंह राजपूत	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्रीमति माधुरी यशवंत दुबे	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्री जगदीश कसार (जगू)	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्री अजयपुरी गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	श्रीमति मनीषा राजेश राय	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्री संतोष विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति शशि चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्री छोटेलाल कुलस्ते	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	श्री विवेक कुमार पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	श्री प्रेमवती जगत कुम्हरे	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-785.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् सारणी, जिला बैतूल के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/ नगर पद परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, सारणी, जिला बैतूल.	अध्यक्ष	—	—	आशा महेन्द्र भारती	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	नेहरू बेले	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	सुनन्दा नन्दू पाटिल	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	भीम बहादुर थापा (भीमू)	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	पार्षद	4	चार	सुनीता यादव	भारतीय जनता पार्टी	
6	पार्षद	5	पांच	रेवाशंकर मगरदे	भारतीय जनता पार्टी	
7	पार्षद	6	छः	शकुन्तला गणेश पाटील	निर्दलीय	
8	पार्षद	7	सात	अनिल वराठे	भारतीय जनता पार्टी	
9	पार्षद	8	आठ	शोभा सोनी	भारतीय जनता पार्टी	
10	पार्षद	9	नौ	बंडु माकोड़े	भारतीय जनता पार्टी	
11	पार्षद	10	दस	शिवकली बबलू नरें	निर्दलीय	
12	पार्षद	11	ग्यारह	शांतिलाल पाल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	
13	पार्षद	12	बारह	नागेन्द्र निगम	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	कांता रूपलाल बेलवंशी	भारतीय जनता पार्टी	
15	पार्षद	14	चौदह	बेबी मनोज ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी	
16	पार्षद	15	पंद्रह	दीपक कुमार	भारतीय जनता पार्टी	
17	पार्षद	16	सोलह	सुनिता महेन्द्र पवार	भारतीय जनता पार्टी	
18	पार्षद	17	सत्रह	सपना मस्की	भारतीय जनता पार्टी	
19	पार्षद	18	अठारह	असांरी शायरा बानो मो. ताहीर असांरी.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	
20	पार्षद	19	उन्नीस	रूकसाना शमशेर असांरी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	
21	पार्षद	20	बीस	संदीप गुलाबचंद झपाटे	भारतीय जनता पार्टी	
22	पार्षद	21	इक्कीस	कु. पूनम महेन्द्र भारती	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	
23	पार्षद	22	बाईस	सुखदेव वामनकर	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	
24	पार्षद	23	तेईस	अनीता बेलवंशी	निर्दलीय	
25	पार्षद	24	चौबीस	कैलाशचंद्र उर्फ संजय अग्रवाल.	भारतीय जनता पार्टी	
26	पार्षद	25	पच्चीस	माला सोनू धुर्वे	भारतीय जनता पार्टी	
27	पार्षद	26	छब्बीस	श्रीमति लक्ष्मी गोहे	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	
28	पार्षद	27	सत्ताईस	संगीता धुर्वे	भारतीय जनता पार्टी	
29	पार्षद	28	अठ्ठाईस	नरेन्द्र कुमार उघडे	भारतीय जनता पार्टी	
30	पार्षद	29	उन्तीस	संतोष देशमुख	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी.	
31	पार्षद	30	तीस	अजय साकरे	निर्दलीय	
32	पार्षद	31	इकतीस	संगीताबाई	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33		पार्षद	32	बत्तीस	रश्मी अशोक बारंगे	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तीतीस	प्रविण सिंह सूर्यवंशी	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौतीस	लता जगदीश पवार	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	मनोज वागद्रे पिता श्री साहेबराव.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
37		पार्षद	36	छत्तीस	रामवती दशरथ सिंह जाट	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-786.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, आठनेर, जिला बैतूल के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद आठनेर, जिला-बैतूल.	अध्यक्ष	—	—	श्री सूरज राठौर	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सीताराम सातपुते	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	मारोती उकण्डया महाले	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	प्रकाश (छोट्टु) भगवंतराव गांवडे	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शेख हारूण	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	आयशा जॉनी पठान	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	रंजीता परेश मगरदे	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	उमेश बारस्कर	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	प्रतिभा सतीश ठाकरे	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सुनीता श्रीराम रूरपुरे	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सुधाकर रतन नागले	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	सबाना आरिफ शेख	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	फरहा इरशाद काजी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	योगेश (योगा) जगताप	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	ज्योति मदन आजाद	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	राजेन्द्र गुलाबराव कालभोर	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-787.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् चिचोली, जिला बैतूल के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् चिचोली, जिला.बैतूल	अध्यक्ष	—	—	श्री सन्तोष मालवीय पिता श्री साहबलाल मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	शिवकुमार उर्फ बबलू पटेल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	ज्योति पानकर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	लक्ष्मण वानखेड़े	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	रेखा पति जयप्रकाश राठौर	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सुनीता विजय आर्य	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	आशाराम धुर्वे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	कुसुम आर्य/दीपचंद आर्य	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	नीतू/मनीष(मंजू) माचीवार	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	शिवकली यादव पति स्वरूपचंद (मोटू) यादव	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	मनीष सोनी पिता प्रहलाद सोनी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	वहीद खान	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	मुकेश मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्रद्धा आर्य/मिथलेश (मेथा) आर्य	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	संजय हंसराज आवलेकर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	रूपेश आर्य (भाई साहब)	इण्डियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ-65-NN-01-2017-पांच-788.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् छनेरा, जिला खण्डवा के माह अगस्त, 2017 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् छनेरा, जिला.,खण्डवा	अध्यक्ष	—	—	पुष्पा बाई पति रामनिवास पटेल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	मुकेश गोलू बौरासी	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कान्ति बाई	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	मोहम्मद इशाक	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	उमा बाई राजकुमार कसेरा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	तृप्ती महेन्द्र प्रताप	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	शकीनाबी बाबूखान	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	नेहा टोनी ठाकूर	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	पंकज प्रजापती	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	माखन मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	पुष्पा कुमरावत (पप्पू सेठ)	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	फरीद खां	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	ब्रजमोहन चौहान पप्पू	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	हरिराम पटेल	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	गुल्की बाई पति रामभरोष ठाकूर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पंद्रह	इन्द्राबाई पति राजाराम	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.